



# ABM International Limited

REGD. OFFICE : 10 / 60, IND. AREA, KIRTI NAGAR, NEW DELHI-110015  
PHONES : 25927878, 25927699, 41426055  
E-mail : vkgandhi@abmintl.in | Website : www.abmintl.in  
CIN No. : L51909DL1983PLC015585  
**NSE TRADING SYMBOL - ABMINTLLTD**

08.08.2023

To,  
The Manager  
Listing Department.  
National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, Plot No, C/ I, G Block,  
Bandra Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai — 400 051

**Symbol "ABMINTLLTD"**

Dear Sirs,

Please find enclosed herewith copies of the Newspaper Clipping of the Unaudited Financial Results for the quarter ended 30<sup>th</sup> June 2023 result as got published in the "Financial Express" and "Jan Satta" dated 06<sup>th</sup> August 2023.

Kindly take note of the same.

Thanking you,

Your Sincerely,

**For ABM INTERNATIONAL LIMITED**

**Amit Kumar**  
Company Secretary



AXIS BANK LTD. POSSESSION NOTICE

Retail Asset Centre: 1st Floor, G-4/5, B, Sector-4, Gomti Nagar Extension Lucknow, UP 226010.  
Registered Office: "Trishul"- 3rd Floor, Opp. Samaratheshwar Temple, Near Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006.

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of **AXIS BANK LTD.** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise or power conferred under Section 13 (12) read with Rule-9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand notice under section 13(2) of the said Act. The borrower/s mentioned herein below having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/s mentioned herein in above in particular and to the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers confer on him under section 13(4) of the said Act read with the rule8 of the Said Rules. The borrower/s mentioned herein in above in particular and the public in general are hereby cautioned not to be deal with the said property and any dealings with the said property will be subject to the mortgage of **AXIS BANK LTD.** for an amount together with further interest incidental expenses, costs, charges, etc. on the amount mentioned against each amount herein below. The Borrower(s)/Co-Borrower (s)/Mortgagor(s)/Guarantor(s) attention is invited to provisions of sub-section(8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

Name of the Borrowers/ Guarantors/Address	Description of the charged/ Mortgaged Properties	Amt. Due as per Demand notice Possession Date
Arpit Viz (Borrower) S/o Sh. Arvind Viz R/o-1. 17B Krishan Nagar Near Krishan Nagar Mandir Mauthra, UP-281004, R/o-2. C/o Auto Viz 17-B, Krishna Nagar Mauthra, UP-281004, Arvind Viz (Co-Borrower) S/o Sh. Nand Kishore Viz R/o-1. 17-B Krishan Nagar Near Krishan Nagar Mandir Mauthra, UP-281004, R/o-2. C/o Azad Cycle Works 0,2350A Bharatpura Gate Mauthra, UP-281004, Shri Nand Kishore S/o Shri Ameer Chand R/o 17-B Krishan Nagar Near Krishan Nagar Mandir Mauthra, UP-281004	Land/property admeasuring area 5400.00 Sq. ft, Plot No.17, situated at Krishan Nagar, Near Tanshique Showroom, City and District Mathura, UP. Bounded as: East - House Built at 18-B, West - Road, North - Gali (Street), South - Road.	Rs. 1,09,46,968.00 Rs. 14,54,225.00 as on 16.05.2023 + interest & other expenses 16.05.2023 02.08.2023
M/s A.A. Enterprises (Borrower), Mr. Arif (Proprietor) S/o Mr. Mohd. Tahir both R/o H.no. 197/4, Munirabad, Gulzari Ibrahim Saddiq Nagar, Lisari Meerut-250002, Mr. Tahir S/o Mr. Shareef R/o-1. H.no. 289 Shakoor Nagar, Meerut City, Meerut-250002, R/o-2. Quarter No. 183/269 (old), Property No. 197/4 (new), Gulzar Ibrahim City, Balroon Lisadi Gate, Meerut (UP) 250002	Land/property admeasuring area 37.62 sq.mt, situated at Quarter No. 183/269 (old), Property No. 197/4 (new), Gulzar Ibrahim City, Balroon Lisadi Gate, Meerut (UP) 250002 In The Name Of Mr. Tahir Bounded as: East - Road, West - Rasta & House Of Hazi Avdal Aziz, North - Chakki Of Sarafuddin, South - House Of Rafeeq	Rs. 15,61,727.24 Rs. 2,28,420.00 as on 13.03.2023 + interest & other expenses 27.03.2023 03.08.2023
Mr. Sanjay Panchal (Borrower) S/o Sh. Mahendra Singh, Mr. Ajay Panchal (Co-Borrower) S/o Sh. Sanjay Panchal Both R/o 16/76, Patti Mehar, Baraut, Baghpata, Baraut, Uttar Pradesh, 250611, Mr. Mahendra Singh S/o Sh. Hoshiyara R/o 2/360, Patti, Mehar, Delhi Bus Stand, Baraut, Baghpata, Baraut, Uttar Pradesh, 250611	Residential/commercial property and measuring 92.378 Sq. Mtr., situated at Village Patti Mehar Gali Ahar Hadud Baraut, Pargana Baraut, Tehsil Baraut District Baghpata, 250611 In The Name Of Mr. Mahendra Singh. Bounded as:East - House Bundu, West - Gaju & Saraju, North - Sadak, South - Kimme Sakka.	Rs. 1926514.00 Rs. 42721.00 as on 17.05.2023 + interest & other expenses 17.05.2023 04.08.2023
Mr. Gyan Singh (Borrower) S/o Sh. Dharampal Singh R/o 464/414, Gali No. 8 New Govindpuri, Meerut, Meerut Cantt, Meerut, Kanker Khara, Uttar Pradesh, 250001, Mrs. Santosh (Co-Borrower) W/o Mr. Gyan Singh R/o-1. 464/414, Gali No. 8 New Govindpuri, Meerut, Meerut Cantt, Meerut, Kanker Khara, Uttar Pradesh, 250001, R/o-2. House No. 146/24F, Village Kasampur, Pargana & District Meerut, Uttar Pradesh, 250001	Commercial/residential property and measuring 133.77 Sq. Mtr. situated at House No. 146/24F, Village Kasampur, Pargana & District Meerut, Uttar Pradesh, 250001 In The Name Of Mrs. Santosh. Bounded as: East - 45 Ft. Than Plot Of Other Person, West - 45 Ft. Than Plot Of Other Person, North - 32 Ft. Than Plot Of Neeraj Kumar, South - 32 Ft. Than 20 Ft. Wide Road.	Rs. 1479964.16 Rs. 56399.00 as on 17.05.2023 + interest & other expenses 20.05.2023 05.08.2023
Mrs. Sarla (Borrower) W/o Sh. Shiv Kumar R/o-1. Awas Vikas Colony, Baraut, Baghpata Uttar Pradesh- 250611, R/o-2. Charan Vihar (Awas Vikas Colony) Baraut, Pargana & Tehsil Baraut, District Baghpata Uttar Pradesh- 250611, Mr. Shiv Kumar (Co-Borrower) S/o Sh. Brahm Singh R/o 359, Shahpur Baroli, Baghpata, Uttar Pradesh- 250611, Mr. Manish Tomar S/o Mr. Shiv Kumar R/o Awas Vikas Colony, Sastri Park, Baraut, Baghpata, Uttar Pradesh- 250611	Residential/commercial property comprising Area Of 53.19 Sq. Mt. Situated At Charan Vihar (awas Vikas Colony) Baraut, Pargana & Tehsil Baraut, District Baghpata UP- 250611 In The Name Of Mrs. Sarla. Boundaries As Per Sale Deed: East - Rasta 6 Mt. Wide, West - Empty Plot No. 1A- 352, North - Rasta 6 Mt. Wide, South - Empty Plot No. 1A- 322.	Rs. 1243027.63 Rs. 33764.02 as on 17.05.2023 + interest & other expenses 22.05.2023 04.08.2023
Date- 06.08.2023	Authorized Officer, Axis Bank Ltd.	

ABM INTERNATIONAL LIMITED						
CIN NO. L51909DL1983PLC015585						
Regd Office: 10/60, Ind Area, Kirti Nagar, New Delhi-110015						
Ph: 011-41426055 E-mail vkgandhi@abmint.in, Website www.abmint.in						
Extract of Statement of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June,2023						
Particulars	Standalone		Consolidated		Rs. In Lakhs	
	Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended	Year Ended		
	30.06.2023 Unaudited	30.06.2022 Unaudited	31.03.2023 Audited	30.06.2023 Unaudited	30.06.2022 Unaudited	31.03.2023 Audited
Total Revenue	2503.05	2259.69	8642.67	2503.05	2259.69	8642.67
Profit / (Loss) before Exceptional and extraordinary items and tax	(109.22)	(111.82)	(877.24)	(109.22)	(111.82)	(877.24)
Share of profit/(loss) of associates	--	--	--	(0.05)	(0.12)	(1.34)
Profit / (Loss) before extraordinary items and tax	(109.22)	(111.82)	(877.24)	(109.27)	(111.94)	(878.58)
Profit / (Loss) before tax	(109.22)	(111.82)	(877.24)	(109.27)	(111.94)	(878.58)
Profit / (Loss) for the period from continuing operations	(109.22)	(111.82)	(668.58)	(109.27)	(111.94)	(669.90)
Items that will be reclassified to profit or loss	--	--	--	--	--	--
Total Other Comprehensive Income/(Loss) for the period	(109.22)	(111.82)	(630.45)	(109.27)	(111.94)	(631.79)
Total Comprehensive Income/(Loss) for the period	(940.80)	(940.80)	(940.80)	(940.80)	(940.80)	(940.08)
Paid-up equity share capital	--	--	--	--	--	--
Other Equity	--	--	--	--	--	--
Earning Per equity share (of "10/- each):						
(1) Basic(Rs. Per Share)	(1.16)	(1.19)	(6.70)	(1.16)	(1.19)	(6.72)
(2) Diluted(Rs. Per Share)	(1.16)	(1.19)	(6.70)	(1.16)	(1.19)	(6.72)
Note:						
1. The Above Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results as reviewed by Audit Committee and approved by Board at its meeting held on 5 <sup>th</sup> August, 2023.						
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the National stock exchange of India Limited under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of Stock Exchange, namely The National stock exchange of India Limited -https://www.nseindia.com and the Company's website- http://www.abmint.in.						
for and on behalf of the Board of Directors						
Sd/-						
ABM INTERNATIONAL LIMITED						
(Rajneesh Gandhi)						
Chairman and Managing Director						
DIN- 00244906						
Date : 05.08.2022						
Place : New Delhi						

STRESSED ASSETS RECOVERY BRANCH (SARB-II) KAROL BAGH, NEW DELHI (BRANCH CODE 51521)

3rd & 4th Floor, State Bank House, 18/4 Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110 005 Tel.011-28752163 Fax. 28755674 Branch e-mail: sbi.51521@sbi.co.in

APPENDIX-IV-A [See proviso to rule 8(6)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

NOTICE FOR E-AUCTION DATED 25.08.2023

SALE OF MOVABLE/IMMOVABLE ASSETS CHARGED TO THE BANK UNDER THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 read with proviso to rule 8 (6) of the security interest (Enforcement Rules, 2002).

The Authorized Officer of State Bank of India (Secured Creditor) has taken over possession (symbolic/physical) of the following property/ies u/s 13(4) of the SARFAESI Act. Public at large and borrowers, mortgagors and guarantors in particular are informed that e-Auction (under SARFAESI Act, 2002) of the charged property/ies in the below mentioned cases for realization of Bank's dues will be held on "AS IS WHERE IS BASIS", "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" on 25.08.2023, for recovery of the amount mentioned below due to the Secured Creditor from the Borrowers, Guarantors and Mortgagors. The Reserve Price and earnest money to be deposited have been mentioned below.

DATE/TIME OF VISIT TO THE PROPERTY FOR INSPECTION: 22.08.2023 FROM 11:00 AM TO 03:00 PM.

EMD of Reserve price to be transferred by bidders by means of challan generated on his / her / their bidder account maintained with M/s. MSTC Ltd on its e-auction site https://www.mstcecommerce.com by means of NEFT from Bidder's Bank, on or before 25.08.2023 up to 4:00 PM.

DATE/TIME OF E-AUCTION ON 25.08.2023 FOR 4 HOURS FROM 11:00 AM TO 03:00 PM WITH UNLIMITED EXTN. OF 10 MIN EACH.

Sr. No.	Name of the Borrowers/ Guarantors	Outstanding dues for recovery of which property/ies/are being sold	Description of the property/ies & Name of Title deed Holder	Reserve Price EMD (10% of Reserve Price) Bid Increment amount	Name of the contact Person
1.	M/s. Seema Enterprises, Banke Mauza-Mudi Crossing Jahang-irpuri, Tehsil- Etmadpur, Distt.-Agra-282006 Sh. Manoj Upadhyay, Smt. Seema Upadhyay	Rs. 1,55,58,102.00 (Rs. One Crore Fifty five lakh Fifty eight thousand one hundred two only ) as on 06.01.2022 Future intt & other charges extra.	Total Dues of EM Plot Khata No. 128, part of Gata No. 1228, Mauza Narach, Mustakil-II, Etmadpur, Agra admeasuring 1035.59 sq. mtr in the name of Sh. Manoj Upadhyay, registered on 27.12.2007, Bahi No. 1, Zild No. 4427, Page No. 75 to 104, Serial No. 10835 registered at Sub Registrar Etmadpur, Distt. Agra Boundries as per Valuation East: House of Neeraj Sharma, West : Central Government Quarter, North: Central Government Quarter, South : 25 ft wide Road EM Plot (Now Comercial factory ) Mauza-Mudi, Jahagirpuri, Tehsil-Etmadpur Khasra No. 332, admeasuring 1062 sq. mtr in the name of Smt. Seema Upadhyay registered on 14.03.2012, Bahi No. 1, Zild No. 6738, Page No. 205 to 224, Serial No. 3253, registered at Sub-Registrar, Etmadpur, Distt. Agra (Only land and Building). Boundaries as per Valuation. East: Rasta, West: Other Property, North: Other Plot, South: Rasta	Rs. 45.00 Lac Rs. 4.50 Lac Rs. 0.50 Lac Rs. 78.94 Lac Rs. 7.89 Lac Rs. 0.50 Lac	Sh. Prakash Kumar -- 9810619975 Sh. N.S. Chauhan-- 9917474539 Sh. Prakash Kumar -- 9810619975 Sh. N.S. Chauhan-- 9917474539
2.	M/s. Shri Ved Auto motives Pvt. Ltd 178 Ajmer Road, Pratap Pura, Agra Sh. Rajeev Ratan, Sh. Rishi Ratan, Sh. Sanjeev Ratan	Rs. 23291932.61 (Rs. Two crore Thirty two lakh Ninety one thousand Nine hundred Thirty two and paise sixty one only ) as on 30.01.2019 Future intt & other charges extra.	Shop. No. 23 & 24 Bhootal, Pushpanjali Dham, Mauza, Bhogipura, Ward, Agra admeasuring 39.48 sq. mtr. In the name of Sh. Sanjeev Ratan and Sh. Rishi Rattan. Shop. No. 25 Bhootal, Pushpanjali Dham, Mauza, Bhogipura, Ward, Agra admeasuring 19.47 sq. mtr. In the name of Sh. Sanjeev Rattan	Rs. 26.55 Lac Rs. 2.66 Lac Rs. 0.20 Lac Rs. 13.28 Lac Rs. 1.33 Lac Rs. 0.20 Lac	Sh. Prakash Kumar -- 9810619975 Sh. N.S. Chauhan-- 9917474539 Sh. Prakash Kumar -- 9810619975 Sh. N.S. Chauhan-- 9917474539
3.	M/s. R. B. Overseas through its Proprietor Sh. Nadeem Qureshi, 893, Sector-4, Avas Vikas Colony, Bodla Agra-282002 Sh. Rais Uddin Qureshi, Smt. Farhana Qureshi w/o Sh. Nadeem Qureshi, Smt. Akhtar Begum, W/o Sh. Rais Uddin Qureshi	Rs. 1,24,79,938.00 (Rs. One crore twenty four lakh seventy nine thousand nine hundred thirty eight only ) as on 03.01.2022 Future intt & other charges extra.	EM Residential House No. 433, Sector-12-C, Avas Vikas Colony, Bodla Agra measuring 148.72 sq. mtr. In the name of Sh. Rais Uddin Qureshi. Registered on 22.10.2002, Bahi No. 1, Khand No. 687, Page 73 to 98, serial No. 4259 Registered at Sub-Registrar, (V) Agra. Boundaries as: North- House No. 426-12, South- 9 mt wide Road, East- House No 434/12, West- House No. 432/12	Rs. 113.08 Lac Rs. 11.31 Lac Rs. 1.00 Lac	Sh. Prakash Kumar -- 9810619975 Sh. N.S. Chauhan-- 9917474539
4.	M/s. Shivvahi Ice and Milk Chilling Plant Pvt. Ltd. Khasra No. 643, Vill-Bhaktupura, Tehra, The. Kheragarh, Distt. Agra. Sh. Harendra Singh, Sh. Abhishek Upadhyay, Sh. Vijay Singh	Rs. 11521211.65 (Rs. One crore fifteen lakh twenty one thousand two hundred eleven and paise sixty five only ) as on 31.01.2019 Future intt & other charges extra.	1. Property situated at part of Khasra No. 643, Mauza & Village Bhaktupura, Tehra, Tehsil-Kheragarh, Distt. Agra (U.P.) are measuring 4379.84 sq. mtr. Vide registered mortgage deed dated 27.07.2017, Bahi No. 1, Jild No. 3506, Page 139-170 at Sr. 3726 (as per mortgaged deed) in the name of Sh. Vijay Singh. Bounded as per valuation: East : Land Sh. Sovran Singh, West: Owner Property, North: Road, South : Land sh. Maan Singh 2. PLANT & MACHINERY	Rs. 128.00 Lac Rs. 12.80 Lac Rs. 0.50 Lac Rs. 24.50 Lac Rs. 2.45 Lac Rs. 0.50 Lac	Sh. Prakash Kumar -- 9810619975 Sh. N.S. Chauhan-- 9917474539 Sh. Prakash Kumar -- 9810619975 Sh. N.S. Chauhan-- 9917474539
5.	M/s UTM Products Plot No.662, Jale-sar Road, Sarai Hajjam, Agra-282006 Sh. Samarth Agarwal, Sh. Silachi Agarwal, Sh. Sanjay Agarwal	Rs.3,03,38,777/- (Rupees Three Crore Three Lakh Thirty Eight Thousand Seven Hundred Seventy Seven Only only ) as on 03.09.2021 Future intt & other charges extra.	Commercial property situated at khasra No.662 Part, Sarai Hazzam, Jalesar Road, Village Narach, Tehsil Etmadpur measuring 325.25 Sqr Mtr Value Registered at Sub Registrar Office Etmadpur at Serial No.12106, Zild 8648, Pages 01-20 on 06/08/2014, in name of Shri Samarth Agrawal. Bounded as : East -Agra Jalesar Road, West - Rest Land of Salers, North - Land of Dilip Sharma, South - Lad of Sanjay Agrawal Commercial property bearing survey No.10717 situat-ed at Khasra No.662 Part, Sarai Hazzam, Jalesar Road, Village Narach, Tehsil Etmadpur measuring 995 Sq. Mtr Value Registered at Sub Registrar Office Etmadpur at Serial No.11628, Zild 5801, Pages 57-76 on 21/09/2010, in name of Sanjay Agrawal & Silachi Agrawal Bounded as : East - Other's Property, West - Plot of Smt Kamlesh Jain, North - 18ft wide passage, South - Other's Property	Rs. 115.12 Lac Rs. 11.51 Lac Rs. 1.00 Lac Rs. 190.80 Lac Rs. 19.08 Lac Rs. 1.00 Lac	Sh. Prakash Kumar -- 9810619975 Sh. N.S. Chauhan-- 9917474539 Sh. Prakash Kumar -- 9810619975 Sh. N.S. Chauhan-- 9917474539
6.	Shri Shyam Sunder S/o Shri Shambhu Nath 126, Rama Enclave, Mauza Maghtai, Lohamandi ward, Agra Sh. Manoj Kumar	Rs. 2926462.00 (Rs. Twenty nine lakh Twenty six thousand four hundred sixty two only ) (inclusive of intt up to 25.08.2021) Future intt & other charges extra.	Residential property situated at 126, Rama Enclave, Mauza Maghtai, Agra in the name of Shri Shyam Sunder & Shri Manoj Kumar, area 125.41 sq. mtr, Reg-istered at Sub Registrar II, Agra Sadar, Agra on 21.01.2016, Bahi No.1, Zild No.12047 Pages 167-196 at serial No.783. Bounded as : E - Other's Land, W - 7.62 mtr Wide Road N - Part of Plot No. 15, S - Part of Plot No. 17	Rs. 14.95 Lac Rs. 1.50 Lac Rs. 0.20 Lac	Sh. Prakash Kumar -- 9810619975 Sh. N.S. Chauhan-- 9917474539
7.	Sh. Adarsh Gupta s/o Sh. Late Neeraj Kumar Gupta 707, Kalash Tower, Sanjay Place, Agra Sh. Varchasva Gupta & Smt. Vimla Gupta	Rs.37,07,174.70 (Rupees Thirty seven lac Ten thousand Seven hundred Seventy four and paise Seventy only) Future intt & other charges extra.	EM of Flat No. 405/44th floor) Neev Residency, Paschimputi, Bodla, Agra in the name of Sh. Adarsh Gupta s/o Sh. Neeraj Gupta, measuring super buildup area 166.29 sq. mtr. Registered at Sadar Agra Sub Reg-II on 06.08.2013, Bahi No. 1, Jild No. 9987, Page No.85 to 114, serial No. 10232 Bounded as per Valuation: North : Corridor, South : Open to Sky, East : Open to Sky, West: Flat No. 406	Rs. 19.70 Lac Rs. 1.92 Lac Rs. 0.20 Lac	Sh. Prakash Kumar -- 9810619975 Sh. N.S. Chauhan-- 9917474539
8.	Dr. Brahma Deo S/o Sh. Kishan Lal, Flat No. 11, 1st Floor, Saptrishi Apartment, GH-6, Sector 16-B Pandit Deen Dayal Upadhyay Puram, Sikandra Youjna Agra, regis-tered on 18.10.2012, Bahi No. 1, Zild 9181, Pages 83-174, Serial No. 14190 at Sub Registrar -II Agra Sadar, Agra in the name of Sh. Brahma Deo. Boundaries: North : Open to Sky, South : Open to Sky East: Corridor and Flat No. 12, West: Open to Sky	Rs. 2886587.00 (Rs. Twenty eight lakh eighty six thousand five hundred eighty seven only ) as on 18.10.2021 Future intt & other charges extra.	EM of Property are 158.32 sq. mtr total covered, situated at Flat No. 11, first floor Saptrishi Apart-ment, GH-6, Sector -16 B Pandit Deen Dayal Upadhyay Puram, Sikandra Youjna Agra, regis-tered on 18.10.2012, Bahi No. 1, Zild 9181, Pages 83-174, Serial No. 14190 at Sub Registrar -II Agra Sadar, Agra in the name of Sh. Brahma Deo. Boundaries: North : Open to Sky, South : Open to Sky East: Corridor and Flat No. 12, West: Open to Sky	Rs. 60.84 Lac Rs. 6.08 Lac Rs. 0.50 Lac	Sh. Prakash Kumar -- 9810619975 Sh. N.S. Chauhan-- 9917474539
9.	M/s. Media House Furniture Distributors, Ground Floor, 6 Paschim Puri Sikandra, Agra-282002 Sh. Ravindra Sharma s/o Devendra Krishna Sharma	Rs. 65,13,977.00/- (Rupees Sixty Five Lakhs Thirteen Thousand Nine Hundred Seventy Seven Only) as on 15.06.2022 Future intt & other charges extra.	Equitable mortgage of Shop No.32, B-2, Block-32/2/4, Basement, Commercial Yojna, Sanjay Place, Hari Parwat, Agra, admeasuring 36.24 Sq. Mtrs. In the name of Sh. Ravindra Sharma s/o Sh. Devendra Krishna Sharma, Agra. Boundaries: East: Common Corridor on Ground Floor West: Common Corridor, North: Unit of Shop No.32/B-8 South: Unit of Shop No.32/B-4	Rs. 49.91 Lac Rs. 4.99 Lac Rs. 0.50 Lac	Sh. Prakash Kumar -- 9810619975 Sh. N.S. Chauhan-- 9917474539

Account/ Wallet in which EMD to be remitted: Bidder's own wallet Registered with M/s MSTC Ltd on its e-auction site https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp by means of NEFT. EMD of Reserve price to be transferred by bidders by means of challan generated on his / her / their bidder account maintained with M/s. MSTC Ltd on its e-auction site https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp by means of NEFT from his / her / their bank, on or before 25.08.2023 up to 4:00 PM. For any assistance, please call MSTC HELPDESH Nos. 033-40602403, 033-40645316 and/or Authorized Officer (Contact Person).

TERMS AND CONDITIONS OF THE E-AUCTION ARE AS UNDER

1. E-Auction is being held on "AS IS WHERE IS" "AS IS WHAT IS" AND "WHATEVER THERE IS BASIS" and will be conducted "On Line". The auction will be conducted through the Bank's approved service provider MSTC E-Commerce at their web portal https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp

2. To the best of knowledge and information of the Authorized Officer there is no encumbrance on the property/ies. However the intending bidder should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of the property/ies put on auction and claims/rights/dues/affecting the property prior to submitting their bid. The E-auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or any representation of the Bank. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the bank. The Authorised Officer shall not be responsible in any way for any third party claims/rights/dues.

3. The Earnest Money Deposit (EMD) of the successful bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of the unsuccessful bidders shall be refunded. The Earnest money Deposit shall not bear any interest. The successful bidder shall have to deposit 25% of the sale price, immediately on acceptance of bid price by the Authorized Officer and the balance of the sale price on or before 15th day of the sale. Default in deposit of amount by the successful bidder would entail forfeiture of the whole money already deposited and property shall be put to the re-auction and the defaulting bidder shall have no claim/right in respect of property/amount.

4. For detailed terms and conditions of the sale please refer to the link at the Bank's Service provider's web portal https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp & at Bank's portal https://www.sbi.co.in

DATE: 04.08.2023, PLACE: NEW DELHI

Sd/- AUTHORIZED OFFICER, STATE BANK OF INDIA, SARB-II, KAROL BAGH, NEW DELHI (BRANCH CODE 51521)

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ

.....ਸਰੋਸ਼ਾਂ ਕਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

...the name you can BANK upon!

Corporate Office: Plot No. 4, Sector-10, Dwarka, New Delhi -110075, Circle Sastra Centre, Plot No. 5, Institutional Area, Sector - 32, Gurugram - 122001, Ph.: 0124-4788246

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

SCHEDULE OF SALE OF THE SECURED ASSETS

Sr. No.	Name of the Branch Name of the Account Name and Addresses of the Borrower/Guarantors Account	Date of Demand Notice U/s 13(2) of Sarfesi Act 2002	Description of the Immovable Properties Mortgaged/ Owner's Name (mortgagors of property(ies))	RESERVE PRICE	DATE/ TIME OF E-AUCTION	Details of the encumbrances known to the secured creditors Name & contact no. of authorized officer
		Outstanding Amount		EMD (LAST DATE OF DEPOSIT OF EMD)		
		Possession Date u/s 13(4) of Sarfaesi Act 2002		Bid Increase Amount		
		Nature of Possession Symbolic / Physical/ Constructive				
22	PNB, BO: New Railway Road - Gurugram (007110) Smt Sudha Devi Thapliyal W/o Shri Ashwani Kumar, Q-501, JMD Garden, Sohna Road, Sector-33, Gurugram- 122003 Smt Sudha Devi Thapliyal W/o Shri Ashwani Kumar, 412A, 4th Floor, ILD Trade Centre, Sector-47, Sohna Road, Gurugram - 122018 Shri Ashwani Kumar S/o Shambu Prasad, Q-501, JMD Garden, Sohna Road, Sector-33, Gurugram-122003. Shri Ashwani Kumar S/o Shambu Prasad, 412A, 4th Floor ILD Trade Centre, Sector-47, Sohna Road, Gurugram -122018	02.02.2019 Rs. 24,38,294.00 as on 30.01.2019 + further interest & Other Charges 16.04.2019 Physical	Commercial Property bearing Office Unit 412A, 4th floor Admeasuring 1216.37 Sq. feet, super area (112.9736 sq mt.) without roof rights at ILD Trade Centre, Sector-47, Sohna Road, Gurugram, Lat.-28.424580N, Lon-77.038740E PUNB82300006	Rs. 67.64 Lakh Rs. 6.77 Lakh (31-08-2023) Rs. 20,000/-	01.09.2023 11:00 AM to 04:00 PM	Not known to us Authorised officer Deepshikha Singh, Chief Manager, 9953494313
23	HIGH VALUE (M/G ROAD) GURUGRAM, 454200 Smt. Sushila Devi W/o Mukesh Mittal (Prop), M/s Mukesh Cloth House, Legal Heirs, 1) Munia W/o Late Sh Shyam Lal 2) Mukesh Mittal S/o Sh Shyam Lal 3) Sandeep S/o Late Sh Shyam Lal 4) Sunil S/o Late Sh. Shyam Lal 5) Manoj S/o Late Sh. Shyam Lal 6) Manju Garg D/o Sh. Shyam Lal 7) Sonu D/O Late Sh Shyam Lal, All Residing at Village Paloda, District Jhajjar-124108	22.11.2022 Rs. 12.37 Lakhs on 31.03.2023 + interest 25.01.2023 Symbolic	All Parts and parcel of property consisting EQM of : Residential plot measuring 121 square gaj bearing khewat no.283 / 289, killa no.72 / 20, ward no.4, Waka Rakha, PATAUDI, District GURUGRAM, Owner Late Sh Shyam Lal. Location-- LATITUDE 28.326202 N LONGITUDE 76.787845 E PUNBGR011764	Rs. 14.40 Lakh Rs. 1.44 Lakh (11-09-2023) Rs. 20,000/-	12.09.2023 11:00 AM to 04:00 PM	Not known to us Authorised officer P.K. SAMMI, Chief Manager, 8527977711
24	SOHNA-336400 (1) M/s. Sai Electricals, A-54, Ganpati Plaza, Bhiwadi, Distt					



**Form No. INC-25A**  
**Advertisement to be published in the newspaper for conversion of public company into a private company**  
**Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs**  
**Northern Region, New Delhi**  
**In the matter of the Companies Act, 2013, section 14 of Companies Act, 2013 and rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 AND**

In the matter of M/s USB Financial Corporation Limited having its registered office 515, Chokhani Square, Sector-18, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201301

Notice is hereby given to the general public that the company intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 29th July, 2023 to enable the company to give effect for such conversion.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, having its office at B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003, within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

**For and on behalf of USB FINANCIAL CORPORATION LIMITED**  
**Naveen Kumar Gupta (Director)**  
**DIN: 00294881**  
**Date: 07/08/2023**  
**Place: Noida**

**Complete address of Registered office:**  
 515, Chokhani Square, Sector-18, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201301

**(RULE-8(1)) POSSESSION NOTICE (for immovable property)**  
 Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Indian Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 03.03.2022 Calling upon the borrowers M/s. Farida W/o Firoz (Mortgager) and Mr. Firoz Khan(Co-Borrower) with our Udyog Vihar Branch to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 85,41,281.75 inclusive of MOI as on 02/03/2022 (Rs 8121529.280/- plus MOI of Rs. 419752.295/-) (in words eighty five lacs forty one thousand two hundred eighty one and seventy five paise only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 and 9 of the said rules on this 4th day of August of the year 2023

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Indian Bank for an amount of Rs. 85,41,281.75 inclusive of MOI as on 02/03/2022 (Rs 8121529.280/- plus MOI of Rs. 419752.295/-) (in words eighty five lacs forty one thousand two hundred eighty one and seventy five paise only) and interest thereon wef 03/03/2022.

"We draw attention to the provisions of Section 13(8) of the SARFAESI Act and the Rules framed there under which deals with your rights of redemption over the securities"

**DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY**

All that part and parcel of the property consisting of Flat No. G-45, Ground Floor Sushant Lok-2, Sector 57 Teh & Dist Gurugram Haryana, admeasuring 139.14 sq mts.

**Date: 04-08-2023, Place: Gurugram** **Authorized Officer, Indian Bank**

**Branch: 10223, Karol Bagh New Delhi 110005,**  
**Email : karolbagh@indianbank.co.in**  
**Ph. : 011-28755821 / 28755827**

**POSSESSION NOTICE**  
 (Under Section 13(4) of Securitization Act, 2002 read with rule 8 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002 for immovable property)

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of Indian Bank, under the Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (herein after referred as "said Act") and in exercise of the power conferred under section 13(2) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, (herein after referred as "said rules"); issued a demand notice dated 20.05.2023 calling upon the borrowers & Guarantors:- Borrower: M/s Gyan Sagar Textiles, X4002- Ground Floor, Shop No.8 & 11, Shanti Mohalla, Gandhi Nagar, Delhi-110051 and also Mr Ravinder Jain (Proprietor), 163/1B, Gali No 17, West Azad Nagar, Krishna Nagar, New Delhi-110031

**Guarantor: Mrs Sarita Jain w/o Ravinder Jain, 163/1B, Gali No 17, West Azad Nagar, Krishna Nagar, New Delhi-110051**  
 to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 2,36,59,610/- (Rupees Two crore thirty six lakhs fifty nine thousand six hundred ten only) due and outstanding as on 20.05.2023 along with further interest, cost, expenses & other charges thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice due in the Loan Account Nos. 50302573807, 58001089499, 7007371648, 7007372494 availed by M/s Gyan Sagar Textiles Prop: Ravinder Jain

Facility	Book Balance Rs.	Interest from 31.03.2023 to 20.05.2023	Total Rs.
OCC-50302573807	Rs.9996065	372672	10368737
WCTL-7007371648	2809557	84097	2893654
GECLS-58001089499	9213933	283855	9497788
FITL-7007372494	865549	3382	899431

The borrowers/ guarantors/ mortgagors have failed to discharge his/ their liability to repay the amount within the period specified in the aforesaid notice and therefore this notice is hereby given to the borrowers/ guarantors/ Mortgagors and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of power conferred on him/ her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on this 2nd Day of August of the year 2023.

The borrowers/ guarantors/ mortgagors in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property mentioned here under and any dealing with the said property will be subject to the charge of the Indian Bank, Karol Bagh branch, for loan amount of Rs. 2,36,59,610/- (Rupees Two crore thirty six lakhs fifty nine thousand six hundred ten only) due and outstanding as on 20.05.2023 along with further interest, costs, expenses & other charges thereon.

**DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY**

**IMMOVABLE ASSETS**

1. All that part and parcel of the property Situated at Private shop No 8 & 11, Ground floor, Property No X4002, out of Kharsa No 35, Gali No 14, Shanti Mohalla, Gandhi Nagar, Village Ghindoli, Shahdara, New Delhi 110031. Bounded by the following : North- Common Gallery, East- Other's Shop, South- Gali No 14, West- Other's Shop

2. Property No 207/2-B, 2nd Floor, Plot No 135, Kharsa No 1405/1068/511/1-2, Village Chandravalli, Shahdara, Bholanath Nagar, Shahdara, New Delhi 110032, Bounded by the following: North - Other's Property No 207/2-C, East - Gali No 8, South - Other's Property No. 207/2-A, West - Gali No 9

**MOVABLE ASSETS**

Hypothecation of all current assets and book debts of the firm M/s Gyan Sagar Textiles at Shop No 8 & 11, X-4002, Shanti Market, Shanti Mohalla, Gandhi Nagar, Shahdara, New Delhi 110031.

**Date: 02-08-2023 Place: New Delhi** **Authorized Officer, Indian Bank**

**PAHARGANJ, NEW DELHI**  
**1855, Wazir Singh Street, Chuna Mandi Paharganj**  
**Ph.:(011) 40046202, E-mail: P513@indianbank.co.in**

**APPENDIX - IV (Rule-8(1)) POSSESSION NOTICE (for immovable property)**  
 Whereas, the undersigned being the authorised officer of the Indian Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 24.05.2023 calling upon the borrower M/s Bahadur Chand Kishan Lal, having account with our Paharganj Branch to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 63,10,395/- (in words Sixty Three Lakhs Ten Thousand Three Hundred Ninety Five rupees only) and interest thereon from 24.05.2023 till date of repayment within 60 days from the date of said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub-section (4) of section 13 of the Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 03rd day of August of the year 2023

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Indian Bank for an amount Rs. 63,10,395/- as on 24.05.2023 with further interest, costs, charges and expenses thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

**DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY**

**Mortgaged assets**

Property No H-29, Block -H, Sector -41, NOIDA, Gautam Budh Nagar, U.P. in the name of Mr. Krishan Lal Bhutani, and bounded as : North - Plot No H-30, Sector 41, South - Plot No H-28, Sector 41, East - Plot No H-17, Sector 41, West - 9.0 Mtrs wide road

**Date: 03-08-2023, Place: Delhi** **Authorized Officer, Indian Bank**

**Form No.5**  
**DEBTS RECOVERY TRIBUNAL**  
 600/11, University Road near Hanuman Setu Mandir, Lucknow  
 (Areas of Jurisdiction: Part of Uttar Pradesh)  
**SUMMONS FOR FILING REPLY & APPEARANCE THROUGH PUBLICATION**  
**O.A. No. 874 of 2022** Dated :- 25.05.2023  
**(Summons to defendant under Section 19(4) of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institution Act 1993 read with rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal Procedure Rules 1993)**  
**HDFC BANK LIMITED** .....Applicant  
**Versus** .....Defendant  
**Sarvangik Infra Private Limited & Ors.**  
**To, 1. SARVANGIK INFRA PRIVATE LIMITED** Through its Directors, H -39, Sector Delta-2, Greater Noida, Gautam Budh Nagar-201306. U.P. 2. MR. DINESH KUMAR S/o Shri Bhim Singh H-39, Sector Delta-2, Greater Noida, Gautam Budh Nagar-201306. U.P. 3. MRS. ANITA KU MART W/o Shri Dinesh Kumar, H -39, Sector Delta-2, Greater Noida, Gautam Budh Nagar-201306, U.P.  
**.....DEFENDANTS**  
 In the above noted application, you are required to file reply/evidence in Paper Book form in two sets along with documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons and thereafter to appear before the Tribunal on 15.12.2023 at 10.30 A.M. failing which the application shall be heard-a 0 decided in your absence.  
**Registrar Debts Recovery Tribunal Lucknow**

**Corrigendum**  
 In the Unaudited Financial Results of M/s. ABM International Ltd. which was published on 06.08.2023, where all the figures of "Items that will be reclassified to profit or loss" and "Total other Comprehensive Income / (Loss) for the period" of "Year ended 31.03.2023 (Audited)" under "Standalone & Consolidated" should read "38.11" instead of 0.00. The error is regretted.

**Form No. 3 [See Regulation-15 (1) (a)]/16(3)]**  
**DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 2) 1st Floor SCO 33-34-35 Sector-17 A, Chandigarh(Additional Space allotted on 3rd & 4th Floor also)**  
**Summons under sub-section(4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.**  
**Case No.: OA/711/2022** **Exh. No.: 17262**  
**HDFC BANK Vs CROWN ENTERPRISES AND OTHERS.**  
 To: (1) Crown Enterprises And Others. DI/WS/O- Sh Ashish Mittal Floor No 4 Flat No 404 Ghs 17 The Amazing Raj Village CGHS 17 Sector 2 Ballabgarh Faridabad, Haryana  
 (2) Ashish Mittal S/o Sh Ashok Mittal Flat No 404 GHS 17 Sector 2 Ballabgarh Faridabad, Haryana  
 (3) Ashok Mittal S/o Sh Om Parkash Mittal Flat No 404 GHS 17 Sector 2 Ballabgarh Faridabad, Haryana  
 (4) Manju Transport Through Its Prop. Sh. Ashok Mittal Flat No 404, GHS 17, Sector-2, Ballabgarh, faridabad- 121004  
 (5) Prachi Gupta D/o Sh. Manoj Kumar Gupta Floor No 4, Flat No 404, GHS 17, The Mazing Raj Villas, CGHS-17 Sector-2, Ballabgarh Faridabad, Haryana  
**SUMMONS**  
 Whereas As, OA/711/2022 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on 10/03/2023.  
 Whereas this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/ notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 9341973.35/- (application along with copies of documents etc. annexed). In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you the defendants are directed as under - (i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted; (ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application; (iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties; (iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/ or other, assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal; (v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 11/08/2023, at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date : 19/04/2023.  
 Signature of the Officer Authorised to issue summons

**FORM A**  
**PUBLIC ANNOUNCEMENT**  
 (Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017)  
**FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF CORNERSTONE SECURITIES LIMITED**

1. Name of Corporate Person	CORNERSTONE SECURITIES LIMITED
2. Date of Incorporation of Corporate Person	16/06/1995
3. Authority under which Corporate Person is incorporated/ Registered	RoC-Delhi
4. Corporate identity number / limited liability identity number of Corporate Person	U74899DL1995PLC069850
5. Address of the registered Office and Principal office (if any) of Corporate Person	C-18, Green Park Main, New Delhi - 110016
6. Liquidation commencement date of Corporate Person	07.08.2023
7. Name, address, email address, telephone number and the registration number of the Liquidator	Jitender Arora Address: Office No. 209-211A, 2nd Floor, H-17/18, Laxmi Palace, Laxmi Nagar, Vikas Marg, Delhi - 110092 (Near Metro Pillar No. 35) Email: CSL.LIQUIDATION@GMAIL.COM Phone: 9811505059 Regn. No.: IBB/IPA-002/IP-N00305/2017-18/10863
8. Last date for submission of claims	05.09.2023

Notice is hereby given that the CORNERSTONE SECURITIES LIMITED has commenced voluntary liquidation on 07.08.2023.  
 The stakeholders of CORNERSTONE SECURITIES LIMITED are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before 05.09.2023, to the liquidator at the address mentioned against item 7.  
 The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means.  
 Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.  
**Date: 07.08.2023** **Jitender Arora**  
**Place: New Delhi** **Liquidator, Cornerstone Securities Limited**  
**Regn. No.: IBB/IPA-002/IP-N00305/2017-18/10863 | AFA Valid upto: 18/12/2023**

**M.K. EXIM (INDIA) LIMITED**  
 CIN: L63040RJ1992PLC007111  
 Registered Office: G/1/150, Garment Zone, E.P.I.P., Sitapura, Tonk Road, Jaipur -302022, Raj.  
 Phone: 0141-3937500, 3937501, Fax: +91-141-3937502  
 E-mail: compliance@mkexim.com Web-Site: www.mkexim.com

**NOTICE OF AGM AND E-VOTING INFORMATION**  
 Notice is hereby given that the 31st AGM of the members of the Company will be held on **Tuesday, 05th September, 2023** at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 read with various circulars of Ministry of Corporate Affairs and SEBI, issued from time to time, to transact the ordinary and special business as mention in the notice together with explanatory statement under Section 102 of the Companies Act, 2013. Members participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act 2013. The shareholders are hereby informed that the company has sent the notice of the AGM and the standalone and consolidated financial statements for the financial year 2022-23 along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attach thereto on 07.08.2023, to their registered e-mail address registered with the company or D.P. or R.T.A. as the case may be. The aforesaid documents are also available on the company's website at www.mkexim.com and BSE website.

**BOOK CLOSURE**  
 Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies Management and Administration Rules, 2014, the Register of Members and Shares Transfer Book of the company will remain closed from **30.08.2023 to 05.09.2023 (Both days inclusive).**

**E-VOTING**  
 Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and read with rule 20 of the Companies Management and Administration Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015 and SS-2 of General Meeting, the company is providing e-voting facility to its shareholders to cast their vote using an e-voting system in respect of all business to be transacted at the AGM through CDLS on all resolution set forth in the notice. Further shareholders are requested to take the note of the following:-

- The remote e-voting period commence on **02.09.2023 at 09:00 A.M. and end on 04.09.2023 at 5:00 P.M.** thereafter the remote e-voting facility shall be disable by CDLS for voting.
- The cut-off date for the purpose of e-voting is **29.08.2023.**
- The facility for e-voting during the meeting shall be made available to only those shareholders whose name are recorded in register of member or in the register of beneficiary owner maintain by depositories as on the cut-off date i.e. **29.08.2023.**
- Investors who became members of the Company after the dispatch of the Notice and holds the shares as on the cut-off date i.e. **29.08.2023** are requested to send the written / email communication to the Company at beata@mkexim.com by mentioning their Folio No./ DP ID and Client ID to obtain the Login-ID and Password for e-voting.
- Those shareholders who have not casted their vote electronically may cast their vote during the Annual General Meeting through VC.
- The Shareholders, who have cast their vote by e-voting prior to the meeting, may attend the meeting through VC but shall not be entitled to cast their vote again at the meeting.
- For electronic voting instruction shareholder may go through the instruction in the notice of meeting.
- Ms. Anshu Parikh, Proprietor of M/s. Anshu Parikh & Associates, Practicing Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer for the e-voting process in a fair and transparent manner.
- If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDLS e-Voting System, you can write an email helpdesk.voting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542/43.
- Please keep your updated email id registered with the Company/RTA/your Depository Participant to receive timely communication.

**For M.K.Exim (India) Limited**  
**Sd/-**  
**Babu Lal Sharma**  
**Company Secretary**  
**Date: 07.08.2023**  
**Place: Jaipur**

**NEELKANTH ROCK-MINERALS LIMITED**  
 CIN: L14219RJ1988PLC062162  
 Registered Office: Flat No. 606, Scheme Chhapasani Jagir, Kharsa No. 175/74, plot No. 15/16 Jodhpur, Rajasthan-342001  
 E-mail ID: info@neelrock.com; Tel: +0291-2631839

**NOTICE**  
 Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday 14th August, 2023 at the Registered Office at Flat No. 606, Scheme Chhapasani Jagir, Kharsa No. 175/74, plot No. 15/16 Jodhpur, Rajasthan - 342001, inter alia, to consider the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2023.  
**By Order Of The Board**  
**For Neelkanth Rock-Minerals Limited**  
**Sd/-**  
**Norant Kaur**  
**Managing Director**  
**Date: 07.08.2023**  
**Place: Jodhpur**

**Form No INC-26**  
**[Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]**  
**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT, REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, NEW DELHI**  
 Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another  
 In the matter of Sub Section 4 of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014  
 AND  
 In the matter of "GOLDEN GALAXY HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED (Formerly Known as Mahavir Stone Crushing Private Limited) Having its Registered Office at 55, 2nd Floor, Lane No. 2, Westend Marg Sadullajab, Near Saket Metro Station New Delhi 110030  
**.....Applicant Company/Petitioner**  
 Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application before the Regional Director, Northern Region, New Delhi (Central Government) under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 24th July 2023 for amending clause ii of the Memorandum of Association to shift its registered office from 'National Capital Territory of Delhi' to 'State of Haryana' (within the Jurisdiction of existing Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana).  
 Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may either on MCA-21 Portal ([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) by filing investor complaint form or deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, 2nd Floor, CGO Complex, New Delhi - 110003, within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy of the objections to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:  
 55, 2nd Floor, Lane No. 2, Westend Marg Sadullajab, Near Saket Metro Station New Delhi 110030  
**On Behalf of the Board**  
**For GOLDEN GALAXY HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED (Formerly Known as Mahavir Stone Crushing Private Limited)**  
**Sd/-**  
**HIMANSHU BHATIA**  
**Managing Director**  
**DIN: 03524461**  
**R/O: House No. 38, Sector-9, Faridabad, Haryana-121006**  
**Date: 07.08.2023**

**Can Fin Homes Ltd.**  
 1ST FLOOR, SCO 2 SECTOR 9, HUDA MARKET KARNAL-HARYANA-132001, TEL.: 0184-2231555, 7625079210  
 E-mail : karnal@canfinhomes.com, CIN:L85110KA1987PLC008699

**DEMAND NOTICE**  
 Under Section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (SARFAESI Act) read with Rule 3(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (Rules).  
 Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Can Fin Homes Ltd., under SARFAESI Act and in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with Rule 3, issued Demand Notice under Section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrowers / guarantors listed hereunder (hereinafter referred to as the "said Borrowers"), to repay the amounts mentioned in the Notice, within 60 days from the date of receipt of Notice, as per details given below.  
 The said Notices have been returned undelivered by the postal authorities / have not been duly acknowledged by the borrowers. Hence the Company by way of abundant caution is effecting this publication of the demand notices (as per the provisions of Rule 3 (1). The undersigned has, therefore, caused these Notices to be pasted on the premises of the last known addresses of the said Borrowers, as per the said Act.  
 As security for due repayment of the loan, the following assets have been mortgaged to the Company by the respective parties as detailed below.

Sr. No.	Name of Borrowers/Guarantors with address	Date of Demand Notice	Amount claimed as per Demand Notice*	Description of the Secured Asset	Date of NPA
1.	<b>Borrower:</b> Mr. Rajeev Aggarwal, s/o Nathu Ram <b>Co-Borrower:</b> Mrs. Bemla w/o Nathu Ram <b>Guarantor:</b> Mr. Bahdur Singh s/o Ishwar	01.08.2023	Rs. 7,42,854/-	All parts and parcel of land situated at KHEWAT NO. 1183, KITTE 11 RAKBA 62 KANAL 15 MARLE ITS 422/125000 VILLAGE NISSING, GALLURPUR ROAD BYE PASS TEHSIL AND DISTRICT KARNAL (HR)-132024 measuring 126 sq yards and construction thereon.	29.07.2023
2.	<b>Borrower:</b> Mr. Rajesh Kumar s/o Om Parkash <b>Co-Borrower:</b> Rekha w/o Rajesh Kumar <b>Guarantor:</b> Mr. Subhash Kumar s/o Ghansi Ram	01.08.2023	Rs. 8,34,277/-	All parts and parcel of land situated at H.No. 3074, Property ID No. 104C3253U26, Gali No. 9, Shiv Colony, Near Kheda Tehsil and Distt Karnal, Haryana-132001 measuring 75.00 sq yards and construction thereon	29.07.2023
3.	<b>Borrower:</b> Mrs. Veena w/o Ramesh Chand <b>Co-Borrower:</b> Mr. Jitender Bhardwaj s/o Ramesh Chand <b>Guarantor:</b> Mr. Manush s/o Surinder Singh	01.08.2023	Rs. 2,17,323/-	All parts and parcel of land situated at H.No.112 On Property ID No. PANW03/B073/0339 situated at Waka Patti Insar, New Bhagat Nagar, Near Gurudwara Sahib, Ward No. 6 Panipat, Haryana - 132103 measuring 70.00 sq yards and construction thereon	29.07.2023

\* Payable with further interest at contractual rates as agreed from the date mentioned above till date of payment.  
 You are hereby called upon to pay the above said amount with contracted rate of interest thereon within 60 days from the date of publication of this notice, failing which the undersigned will be constrained to Initiate action under SARFAESI Act to enforce the aforesaid security. Further, the attention of borrowers / guarantors is invited to provisions of Section 13 (8) of the Act, in respect of time available to them to redeem the secured assets  
**Date: 07.08.2023**  
**Place: Karnal**

**केनरा बैंक Canara Bank**  
 (A Document of India Undertaking)  
 [Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]

Whereas, The undersigned being the Authorised officer of the CANARA BANK, under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 to 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule-3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice on the date mentioned against account and stated herein calling upon them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession to the property describe herein blow in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The borrower/guarantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the CANARA BANK for the amounts and interest thereon. The borrowers attentions in invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the act, in respect of time available to redeem to secured asset. Details of properties where possession had been taken as follows:

Name of the Borrower/Guarantor	Description of the Immoveable Property	Outstanding Amount u/s 13(2) + Int. & Other Charge As on	Date of Demand Notice Date of Possession
<b>Shri. AmanAgarwal, S/O Arun Kumar Agarwal, R/O - Mahajan Basti, Gajraula, Tehsil - Dhanaura, District - Amroha, Uttar Pradesh - 244235 and the Guarantors Smt. Sadhna Agarwal, W/O Arun Kumar Agarwal, R/O - SunarWaliGali, Mahajan Basti Gajraula, Tehsil - Dhanaura, District - Amroha, Uttar Pradesh - 244235, and Dilsad, S/O SattarHussain, Mohalla - Jalnagar, Gajraula, Tehsil - Dhanaura, District - Amroha, Uttar Pradesh - 244235</b>	<b>Residential House</b> measuring area 142.02 Square Metres situated at MohallaMahajan Basti, Gajraula, Tehsil Dhanaura, Dist-Amroha. Sale Deed registered on 01-07-2015, No.4739, Book No.1 Vol No. 896, page No. 265/288, in the office of Sub- Registrar Office Dhanaura, Owned by Smt. Sahna Agarwal, W/O Arun Kumar Agarwal. <b>Bounded as: East:</b> House of Ramesh Arath, <b>West:</b> Gali 6 ft. wide, <b>North:</b> House of Nathu Singh, <b>South:</b> House of Vinod and Dinesh Singhal	Rs.25,02,965.23/- + Int. & Other Charge As on 01.12.2020	22.09.2022 05.08.2023
<b>Smt. Babita, W/O Lakhnan Singh, Mohalla - Laxmi Nagar, Near P.N.B. Bank, Delhi Road, Gajraula, Tehsil - Dhanaura, District - Amroha, Uttar Pradesh - 244235 and Lakhnan Singh, S/O Indra Singh, Mohalla - Laxmi Nagar, Near P.N.B. Bank, Delhi Road, Gajraula, Tehsil - Dhanaura, District - Amroha, Uttar Pradesh - 244235 and the Guarantor Sharad Kumar, S/O Sumesh Chandra Tyagi, Village - Daurara, Post - Rehra, Tehsil - Hasanpur, District - Amroha, Uttar Pradesh - 244255</b>	<b>Residential House</b> measuring area 171.00 Square Metres situated at Mohalla Laxmi Nagar, Near P.N.B. Bank, Delhi Road, Gajraula, Tehsil Dhanaura, Dist- Amroha, Sale Deed registered on 16-01-2018, No.584, Book No.1 Vol No. 5804, page No. 351/		







**Aayush Food and Herbs Limited**

CIN: L01122DL1984PLC018307

Regd. Office: 55, 2nd Floor, Lane 2, Westend Marg, Saitaulajab, Near Saket Metro Station, New Delhi, Delhi 110030 | Phone: 011-41009092 | Email: aayushfoodherbs@gmail.com | Website: www.aayushfoods.com

**Extracts of the statement of Un-Audited Financial Results for the quarter ended on June 30, 2023**

Particulars	Standalone		
	Quarter ended	Year ended	Quarter ended
	30.06.2023	31.03.2023	31.06.2022
	(Un-Audited)	(Audited)	(Un-Audited)
Total income from operations (net)	17,350	142,400	522,570
Net Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional items)	8,990	(30,490)	31,610
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional items)	8,990	(30,490)	31,610
Net Profit / (Loss) for the period after tax	8,990	(30,220)	23,390
Paid-up Equity Share Capital (Share of Rs. 5/- each)	324,500	324,500	324,500
Earning per equity share			
Basic	0.277	(0.931)	0.721
Diluted	0.277	(0.931)	0.721

**Notes:**

The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Un-audited Financial Results for the quarter and financial year ended is available on the website of the Stock Exchange i.e. BSE India (www.bseindia.com) and Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.mseil.in).

Figures of the previous year have been re-grouped/ re-arranged / re-classified wherever considered necessary.

By Order of the Board  
For Aayush Food and Herbs Limited  
Sd/-  
Naveenakumar Kunjara  
DIN: 07087891  
Managing Director

Date: 04/08/2023

Place: New Delhi

**इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड**

CIN - L74993UP1990PLC015721

पंजी. कार्यालय:- 10.5 किमी. माईलेस्टोन, रामपुर-रोहता रोड, रामपुर- 244901

वेबसाइट: www.indiantoners.com, ई-मेल: info@indiantoners.com, फोन नं:- 011-45017000

30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही का त्रिवर्ष अन्तर्काक्षित वित्तीय परिणामों का सार

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	
		30 जून 2023 (अनंकीकृत)	31 मार्च 2023 (अंकीकृत)	30 जून 2022 (अनंकीकृत)	31 मार्च 2023 (अंकीकृत)
1	परिचालनों से कुल आय	3,707.08	4,300.56	3,398.73	15,516.90
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर तथा असाधारण मदों से पूर्व)	836.64	1,077.72	713.14	3,409.62
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण मदों के बाद)	836.64	1,077.72	713.14	3,409.62
4	कर तथा असाधारण मदों के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि)	685.72	705.17	570.48	2,631.43
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद)/ लाभ/ (हानि) एवं श्रव्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल	687.97	683.14	580.90	2,637.15
6	इक्विटी शेयर पूंजी	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00
7	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का)				
क) मूल (रु.)		6.32	6.50	5.26	24.25
ख) सरल (रु.)		6.32	6.50	5.26	24.25

**टिप्पणी:**

1. अनंकीकृत वित्तीय परिणामों की, कम्पनी के सांख्यिक अंकीकरणों द्वारा समीक्षा की गई, ऑडिट कमिती द्वारा समीक्षा की गई तथा 7 अगस्त, 2023 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। सांख्यिक अंकीकरणों की सीमित समीक्षा रिपोर्ट वाम्ये स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की जा रही है।

2. उपरोक्त सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल की गई 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के अनंकीकृत वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। सांख्यिक अंकीकरणों के समीक्षा रिपोर्ट के साथ 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के अनंकीकृत वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप हमारी वेबसाइट [www.indiantoners.com](http://www.indiantoners.com) के निवेशक खंड के अंतर्गत तथा [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) के कॉर्पोरेट खंड में वित्तीय परिणामों के अंतर्गत उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश से

इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड के लिए

हस्ता./-

(सुशील जैन)

अध्यक्ष

DIN: 00323952

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 7 अगस्त, 2023

**CSL FINANCE LIMITED**Regd. Office: 410-412,18/12, 4<sup>th</sup> Floor, W.E.A, Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110005Corp. Office: 716-717, 7<sup>th</sup> floor, Tower B, World Trade Tower, Noida, Sector-16, U.P.-201301

(CIN: L74899DL1992PLC051462; Tel: 0120-4290654; Email: info@cslfinance.in;

Web: www.cslfinance.in)

**EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023**

Particulars	Amount (Rs. in Lakhs)			
	30-Jun-23 Un-audited	31-Mar-23 Un-audited	30-Jun-22 Un-audited	Year ended 31-Mar-23 Audited
Total Income from operations	3592.00	3359.00	2504.79	11723.69
Net Profit/(loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	1818.80	1641.57	1419.92	6153.13
Net Profit/(loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1818.80	1641.57	1419.91	6153.13
Net Profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1324.81	1189.66	1063.88	4562.84
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	1324.81	1191.68	1063.87	4564.86
Paid up Equity Share Capital	2035.47	2023.84	2030.34	2023.84
Reserves (excluding Revaluation reserve)			31183.67	34228.13
Securities Premium Account				7313.68
Net Worth				37706.29
Debt Equity Ratio	0.96	1.13	0.78	1.13
Earnings per share (Face value of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-				
Basic	6.39	5.75	5.13	22.02
Diluted	6.35	5.59	5.07	21.40
Capital Redemption Reserve				62.15
Debenture Redemption Reserve			1200	4000.00
Debt Service Coverage Ratio			NA	NA
Interest Service Coverage Ratio			NA	NA

**Notes:**

- The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the quarter ended on June 30, 2023 filed with National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited under Regulation 33 (and other Regulations as applicable) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above Financial Results is available on the Stock Exchange(s) website viz. <https://www.nseindia.com/> and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) respectively and on the company's website at [www.cslfinance.in](http://www.cslfinance.in).
- The above Un-Audited Financial Results were reviewed & recommended by the Audit Committee and then approved by the Board of Directors at their respective meetings held on August 07, 2023.
- The above Un-Audited Financial Results have been prepared in accordance with the principles laid down in The Indian Accounting Standards.

On behalf of the Board  
For CSL Finance Limited  
Sd/-  
Rohit Gupta  
(Managing Director)  
DIN: 00045077

Place : Noida

Date : 07.08.2023

एनडीआर ऑटो कम्पौनेट्स लिमिटेड	
पंजीकृत कार्यालय : लेवल-5, सेगुस कैंडी कॉमर्शियल टॉवर, हॉस्पिटैलिटी इंडिस्ट्रियल एरियासिटी, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110037	
सीआईएन : L29304DL2019PLC347460	
वेबसाइट : www.ndrauto.com, ई-मेल : cs@ndrauto.com, दूरभाष :+91 9643339870-74	
30 जून 2023 को समाप्त तिमाही के एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण	(रु. लाख में, प्रति अंश आंशका होड़कन)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	
		30/06/2023 (अलेखापरीक्षित)	31/03/2023 (लेखापरीक्षित)	30/06/2022 (अलेखापरीक्षित)	31/03/2023 (लेखापरीक्षित)
1	परिचालनों से कुल आय	12,922.12	13,305.03	6,496.46	39,996.82
2	अवधि हेतु निवल लाभ (कर, आपवाधिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	890.70	1,010.74	436.25	2,845.14
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ (आपवाधिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	890.70	1,010.74	436.25	2,845.14
4	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ (आपवाधिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	669.73	750.48	346.48	2,135.79
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट]	671.08	738.93	352.10	2,141.23
6	समता अंश पूंजी	594.63	594.63	594.63	594.63
7	अन्य समताएं (आरक्षितियां) (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित छोड़कर), लेखापरीक्षित तुलन-पत्र में निर्दिष्टानुसार	-	-	-	16,402.08
8	आय प्रति अंश (रु. 10/- प्रत्येक का) (परिवारनस्त् तथा अपरिचालित परिवारनस्त् हेतु) (रु. में)	11.26	12.62	5.83	35.92
	(क) मूलतः (रु.)	11.26	12.62	5.83	35.92
	(ख) तरलीकृत (रु.)	11.26	12.62	5.83	35.92

**टिप्पणियाँ :-**

- क) उपरोक्त विवरण, सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइलबद्ध त्रैमासिक एकल वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। त्रैमासिक एकल वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, कंपनी की वेबसाइट : ([www.ndrauto.com](http://www.ndrauto.com)), बीएसई ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) तथा एनएसई ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) पर उपलब्ध है।
- ख) एनडीआर ऑटो कम्पौनेट्स लिमिटेड ("कंपनी") के उपरोक्त एकल वित्तीय परिणामों को, कंपनी अधिनियम 2013 की प्रासंगिक विनियमावली एवं संशोधनों के साथ पठित उसकी धारा 133 तथा भारत में सामान्य ढंग से स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अंतर्गत निर्धारितानुसार भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी-एएस) के अनुरूप तैयार किया गया है।
- ग) उपरोक्त एकल परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई है तथा निदेशक मंडल द्वारा 07 अगस्त 2023 को आयोजित अपनी बैठक में इनका अनुमोदन किया गया। उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा, कंपनी के संबंधित लेखापरीक्षक द्वारा भारतीय चार्टर्डरिड लेखाकार संस्था द्वारा निर्गत समीक्षा कार्यव्यवस्थाओं के मानक (एसआरडी) 2410 के अनुरूप की गयी है तथा उन्होंने उपर्युक्त परिणामों पर अंशोशोधित प्रतिवेदन निर्गत किया है।

निदेशक मंडल के लिये तथा उसकी ओर से

स्थान : गुरुग्राम  
दिनांक : 07-अगस्त-2023

एनडीआर ऑटो कम्पौनेट्स लिमिटेड	
पंजीकृत कार्यालय : लेवल-5, सेगुस कैंडी कॉमर्शियल टॉवर, हॉस्पिटैलिटी इंडिस्ट्रियल एरियासिटी, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110037	
सीआईएन : L29304DL2019PLC347460	
वेबसाइट : www.ndrauto.com, ई-मेल : cs@ndrauto.com, दूरभाष :+91 9643339870-74	
30 जून 2023 को समाप्त तिमाही के समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण	(रु. लाख में, प्रति अंश आंशका होड़कन)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	
		30/06/2023 (अलेखापरीक्षित)	31/03/2023 (लेखापरीक्षित)	30/06/2022 (अलेखापरीक्षित)	31/03/2023 (लेखापरीक्षित)
1	परिचालनों से कुल आय	12,892.12	13,305.03	6,409.46	39,909.82
2	अवधि हेतु निवल लाभ (कर, आपवाधिक, असाधारण मदों से पूर्व)	1,053.21	1,256.63	494.80	3,520.08
3	अवधि हेतु निवल लाभ (कर पूर्व, किंतु आपवाधिक, असाधारण मदों के उपरांत)	1,053.21	1,256.63	494.80	3,520.08
4	कर, आपवाधिक, असाधारण मदों के उपरांत की अवधि हेतु निवल लाभ	824.42	996.37	405.03	2,810.73
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट]	826.94	985.40	411.88	2,820.47
6	समता अंश पूंजी	594.63	594.63	594.63	594.63
7	अन्य समताएं (आरक्षितियां) (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित छोड़कर), लेखापरीक्षित तुलन-पत्र में निर्दिष्टानुसार	-	-	-	21,197.68
8	आय प्रति अंश (रु. 10/- प्रत्येक का) (परिवारनस्त् तथा अपरिचालित परिवारनस्त् हेतु) (रु. में)	13.86	16.76	6.81	47.27
	(क) मूलतः (रु.)	13.86	16.76	6.81	47.27
	(ख) तरलीकृत (रु.)	13.86	16.76	6.81	47.27

**टिप्पणियाँ :-**

- क) उपरोक्त विवरण, सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइलबद्ध त्रैमासिक समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। त्रैमासिक समेकित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, कंपनी की वेबसाइट : ([www.ndrauto.com](http://www.ndrauto.com)), बीएसई ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) तथा एनएसई ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) पर उपलब्ध है।
- ख) एनडीआर ऑटो कम्पौनेट्स लिमिटेड ("कंपनी") के उपरोक्त समेकित वित्तीय परिणामों को, कंपनी अधिनियम 2013 की प्रासंगिक विनियमावली एवं संशोधनों के साथ पठित उसकी धारा 133 तथा भारत में सामान्य ढंग से स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अंतर्गत निर्धारितानुसार भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी-एएस) के अनुरूप तैयार किया गया है।
- ग) उपरोक्त समेकित परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई है तथा निदेशक मंडल द्वारा 07 अगस्त 2023 को आयोजित अपनी बैठक में इनका अनुमोदन किया गया। उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा, कंपनी के संबंधित लेखापरीक्षक द्वारा भारतीय चार्टर्डरिड लेखाकार संस्था द्वारा निर्गत समीक्षा कार्यव्यवस्थाओं के मानक (एसआरडी) 2410 के अनुरूप की गयी है तथा उन्होंने उपर्युक्त परिणामों पर अंशोशोधित प्रतिवेदन निर्गत किया है।

निदेशक मंडल के लिये तथा उसकी ओर से

स्थान : गुरुग्राम  
दिनांक : 07-अगस्त-2023

**प्रप्र स. सी.आईएनसी-26**

कम्पनी (निगम) निवामवली,

2014 के निगम 30 के अनुगलन में]

केनर सरकार, क्षेत्रीय निदेशक

उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष

एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत

कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में

प्रकाशन के लिए विज्ञापन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-

धारा (4) तथा कम्पनी (निगम) निवामवली,

2014 के निगम 30 के उप-निगम (5) के

कलॉन (ए) के मामले में

तथा

"गोलन गैलेक्सी होटल एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

(पूर्व में महावीर स्टोन क्रीशन प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड)

वित्तिका पंजीकृत कार्यालय 55.2 रा तल, लेन नं. 2, बेन्टरेड

मार्ग, सैडुल्लाज, साकेत मेट्रो स्टेशन के निकट, नई दिल्ली-

110030 में है, के मामले में

-आवेदक कम्पनी/वाचिकाकन

एलद्वाय आम जनता को सूचित किया जाता है कि "रा

क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" (वर्तमान कम्पनी रजिस्ट्रार

रा.क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा के क्षेत्राधिकार के भीतर) में

उत्तरे पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी

को सक्षम बनाने के लिए 24 जुलाई, 2023 को आयोजित

असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार

कंपनी के मेम्बरेशन ऑफ एंजलीएशन के कलॉन II के

परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा

13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी

क्षेत्र पीएन, नई दिल्ली (केनर सरकार) के पास आवेदन करने

का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से

वैत किन्ती व्यक्ति का हित प्रभावित होता है, वे एमसी- 23

रॉड (www.mca.gov.in) पर निवेशक विज्ञापन

प्रस्ताव दाखिल करें अथवा उनके नीचे वर्णित कर्तव्य

कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ

इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर

अपने हित की प्रकृति तथा आपात के कारणों का उल्लेख

करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्पित अपनी आपत क्षेत्रीय

निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2<sup>व</sup> तल, सी वीन दवाय

अन्योदय भवन, नजीबोई कॉलोनी, नई दिल्ली-110003

से जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

55.2 रा तल, लेन नं. 2, बेन्टरेड मार्ग, सैडुल्लाज

साकेत मेट्रो स्टेशन के निकट, नई दिल्ली-110030

बोर्ड की ओर से

कृते, गोलन गैलेक्सी होटल

एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

(पूर्व में महावीर स्टोन

क्रीशन प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड)

हस्ता./-

हिमांशु धाटिया

प्रबंध निदेशक

DIN : 03524461

तिथि : 7.8.2023 तिथिवा : मकान नं. 38, सेक्टर- 10

स्थान: नई दिल्ली फरीदाबाद, हरियाणा-121006

गुडिपत्र  
मै. एवीएम इन्टरनेशनल लि. के अनंकीकृत वित्तीय परिणामों को 06.08.2023 को प्रकाशित की गई थी जिसमें "लाभ अथवा हानि में वृद्धि" की जाने वाली मदों" तथा 31.03.2023 को समाप्त वर्ष" की अवधि के लिये कुल अन्य व्यापक आय/(हानि) (अंकीकृत) के साथ आंकड़ें "स्ट्रेण्डएलन एवं समेकित" के अंतर्गत वर्णित को 0.00 को जगह "38.11" वहाँ। असुविधा के लिये खेद है।

**सुप्रीम**